ALUMINUM RADIATOR/ CONDENSOR MANUFACTURING ASSEMBLY PLANT COMPRISING FOR IMMEDIATE SALE

FIN MACHINE - with 2 sets of form rollers (16mm width, 8mm height)

alonwith matrix builder. Make - FIN MACHINE COMPANY- UK
I BRAZING FURNANCE - Make - SHINWON KOREA
I HELIUM LEAK TESTER - Make - KNOW HOW, CHINA Year - 2015

The machine is in excellent working conditions inspected by

Japanese Technicians recently

Contact: Sanjivv Narulaa: 8766336448

20 MW BAGASSE BASED COGENERATION POWER PLANT FOR IMMEDIATE SALE

TURBINE DETAILS: • Capacity - 20MW • Steam Inlet Pressure - 86Kg/cm2
• Turbine Steam Inlet Temperature - 485+/- 5Deg C • Rated Speed - 3000 RPM • HP Heater Extraction • Steam Pressure - 8.5 Kg/cm2 • Steam Temperature - 320 Deg. C • Steam Flow - 10 TPH • LP Heater Extraction • Steam Pressure - 1.5 Kg/cm2 • Steam Temperature - 180 Deg. C • Steam Flow - 60 TPH • Make: QING DAO JIENENG STEAM

ALTERNATOR DETAILS: • Generator Power Capacity - 20MW • Rated

ALTERNATOR DETAILS:- • Generator Power Capacity - 20MW • Rated Voltage - 11000 V • Rated Current - 1300 A • Rated Speed - 3000 RPM • Rated Frequency - 50 Hz • Rated Power Factor - 0.8 - Make: QING DAO JIENENG ELECTRICAL EQUIPMENT -CO-LTD.

The Turbine installed at Naidupet, Nellore District, Andhra Pradesh is in excellent working condition and bought under NCLT Auction

Contact: Sanjivv Narulaa: 8766336448

MANGALAM ENGINEERING PROJECTS LTD.

The above is an extract of the detailed Un-Audited Financial Results for the quarter ended on June 30, 2023 cock Exchange under Regulation 33 of the SEB1 (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2 mat of the Un-Audited Financial Result is available on the Stock Exchange website (www.msei.in) as well as on the

rmator the Un-Audited Financial Results available on the Stock Exchange website (www.msei.in) as well as on the websiter (e 6 Company (www.mangalamengineering.com).

The above Un-Audited Results for the quarter ended on June 30, 2023 have been reviewed by the Audit Committee an proved by the Board of Directors at its meeting held on July 07, 2023

The Company has adopted Indian Accounting Standards (Ind AS) w.e.f. 01.04.2018 and accordingly the Financial Result ave been prepared in accordance with the recognition and measurement principle laid down in the IND AS 34 "Interin nancial Reporting" prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules issued thereunder.

RPG LIFE SCIENCES

An **IRPG** Company

RPG LIFE SCIENCES LIMITED

Regd. office: RPG House, 463, Dr. Annie Besant Road,

Worli, Mumbai 400 030. CIN: L24232MH2007PLC169354;

Tel: +91-22-6975 7100; **Fax:** +91-22-2497 0127

E-mail: info@rpglifesciences.com; Web: www.rpglifesciences.com Notice of the Sixteenth Annual General Meeting and

Record Date

NOTICE is hereby given that the Sixteenth Annual General Meeting

"AGM") of the Members of RPG Life Sciences Limited ("the Company")

will be held on Friday, August 04, 2023 at 03:00 p.m. through Video

Conferencing ("VC")/ Other Audio-Visual Means ("OAVM") to transact the business as set out in the Notice of the AGM which is being

The Ministry of Corporate Affairs ("MCA") vide its circulars dated May

05, 2020 read with other relevant circulars issued from time to time

including circular dated December 28, 2022 ("MCA Circulars") has

permitted holding of AGM through VC/OAVM without the physical

presence of Members, Further, the Securities and Exchange Board of

India ("SEBI"), vide its circular dated May 12, 2020 read with other

relevant circulars issued from time to time including circular dated

January 05, 2023 ("SEBI Circulars") has granted relaxation in respect

of sending physical copies of Annual Report to Members. Accordingly,

n compliance with the MCA Circulars, SEBI Circulars and relevant

provisions of the Companies Act, 2013 and SEBI (Listing Obligations

In compliance with the above mentioned Circulars, the Notice of the

circulated for convening the AGM.

through VC/OAVM.

 Quarter ended 30.06.2023
 Quarter ended 30.06.2023
 Quarter ended 30.06.2022

 Un-audited)
 (Audited)
 (Un-Audited)

-0.75

-3.62

-0.26 -0.26

Results for the quarter ended on June 30, 2023 filed with the Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full

-134.41 -394.64 122.50 122.50

4.49

1.77

64.53 122.50

0.09

ended 31.03.202

27.2

13.44

13.44 8.68

0.71

Director DIN: 00076629

1.08

-7.50

-0.56 -0.56

Regd. Office: 101C, Ground Floor, Kundan House.

Total income from operations (net)
Net Profit/(Loss) for the period (before tax, Exceptional

Net Profit/(Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)

Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)

Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)

Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)

Total comprehensive income for the period (after tax) and Other Comprehensive income (after tax))

Equity Share Capital

Other Equity (excluding Revaluation Reserve)

Earnings Per Share (of ₹10/- each)

ദ CSB Bank

NOTICE OF 102[™] ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING/OAVM

NOTICE is hereby given that:

1.The 102nd Annual General Meeting("AGM") of CSB Bank Limited ("the Bank") will be held on Tuesday, August 08, 2023, at 11:00 a.m. IST through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") in compliance with Companies Act, 2013 ("the Act") read with General Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, Circular No.17/2020 dated April 13, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) followed by Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020, Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021, Circular No. 02/2022 dated May 05, 2022, General Circular No. 10/2022 and General Circular No. 11/2022, dated December 28, 2022 (collectively referred to as "MCA Circulars") and Securities and Exchange Board of India ("SEBI") Circular dated May 13, 2022, read with Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 05, 2023, (collectively "SEBI Circulars") and all other applicable laws and circulars issued by Ministry of Corporate Affairs ("MCA"), Government of India and SEBI, without the physical presence of shareholders at a common venue, to transact the business that will be set forth in the Notice of the Meeting.

- 2.In compliance with the above circulars, electronic copies of the Notice of the AGM and Annual Report for the financial year 2022-2023, will be sent to all the shareholders whose email addresses are registered with the Bank/Depository Participant(s). Shareholders may please note that, the requirement of sending physical copies of the Annual Report and AGM Notice has been dispensed with vide above mentioned MCA and SEBI Circulars. However, the physical copies of the Annual Report for the FY 2022-23 shall be sent to those shareholder, who request the same at board@csb.co.in
- 3.Shareholders can attend and participate in the AGM through VC/OAVM facility only. Shareholders attending the AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of reckoning the guorum under Section 103 of the Act
- 4. Shareholders who are holding shares in physical mode and have not registered their e-Mail IDs are requested to provide Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (selfattested scanned copy of PAN card), AADHAAR (self-attested scanned copy of Aadhaar Card) by email to coimbatore@linkintime.co.in and shareholders who are holding shares in demat mode and have not registered their e-Mail IDs are requested to provide DPID-CLID (16 digit DPID + CLID or 16 digit beneficiary ID), Name, client master list or copy of Consolidated Account statement, PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAAR (self-attested scanned copy of Aadhaar Card) to investors@csb.co.in for obtaining the user ID and password for casting the vote through remote e-voting/e-voting during the AGM. Alternatively, shareholders may send a request to helpdesk.evoting@cdslindia.com for procuring user id and password for e-voting by providing above mentioned documents.
- 5. The notice of the AGM and Annual Report for the financial year 2022-23, will be made available on the Bank's website, at https://www.csb.co.in under 'Investor Relations' section, website of the stock exchanges viz., BSE Limited at https://www.bseindia.com and on the National Stock Exchange of India Ltd., at https://www.nseindia.com and on the CDSL website, at www.evotingindia.com
- 6.Shareholders will have an opportunity to cast their vote remotely or through the e-voting system during the meeting on the business as may be set forth in the Notice of the AGM through electronic voting system. The manner of voting remotely for shareholders holding shares in dematerialized mode, physical mode and for shareholders who have not registered their email addresses will be provided in the Notice of the AGM. The details will also be made available on the website of the Bank. Shareholders are requested to visit https://www.csb.co.in to obtain such details

GISTRATION OF EMAIL ADDRESSES WITH REGISTRAR AND SHARE TRANSFER AGENT ("RTA") TO RECEIVE NOTICE AND ANNUAL REPORT

To facilitate shareholders to cast their votes as well as to receive the Notice and Annual Report 2022-23. electronically, the Bank has made special arrangement with its Registrar and Share Transfer Agent, M/s. Link Intime India Private Limited for registration of e-mail addresses. Eligible shareholders whose e-mail addresses are not registered with the Bank/RTA/ DPs are required to provide the same to M/s. Link Intime India Private Limited, by visiting the link: https://web.linkintime.co.in/EmailReg/Email_Register.html

PROCEDURE TO UPDATE E-MAIL ADDRESS AND OTHER KYC DETAILS IN FOLIO NO./ DEMAT ACCOUNT

In terms of SEBI Circular no. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD-1/P/CIR/2023/37 dated March 16, 2023, it shall be mandatory for all holders of physical securities in listed entity to furnish/update PAN, Nomination, Address, Mobile Number, E-Mail Address, Bank Account mandate and Specimen Signature by submitting prescribed Forms viz. ISR-1, ISR-2, SH-13, etc., as the case may be. The folios wherein any one of the cited document/details are not available on or after October 01, 2023, shall be frozen by the RTA. The format of said Forms are available on the website of the Bank at www.csb.co.in and on the website of the RTA at www.linkintime.co.in. Hence, we request the shareholders of the Bank, who have not registered their PAN, Nomination, Address, Mobile Number, E-Mail Address, Bank Account mandate and Specimen Signature, to update the same in the following manner

For shares held in physical form:	Submit duly filled Forms viz., ISR-1 (Request for Registering/updating the e-Mail ID, PAN, KYC details, Bank mandate etc.,), ISR-2 (confirmation of signature of shareholder by their banker), SH-13 (request for nomination), etc., as the case may be, along with required supporting documents to the Bank's RTA in the following address:
	Link Intime India Pvt. Ltd, Surya 35, Mayflower Avenue, Behind Senthil Nagar, Sowripalayam Road, Coimbatore - 641028. Ph: 0422 – 2314792, 2315792, E-mail: coimbatore@linkintime.co.in
For shares held in electronic form (i.e., Demat):	The details shall be updated with the concerned Depository Participant (DP) where the Demat account is maintained

For CSB Bank Limited Sijo Varghese **Company Secretary**

Thrissur I July 07, 2023

CSB BANK LIMITED

Regd. Office: "CSB Bhavan", St. Mary's College Road, Post Box No.502, Thrissur - 680 020, Kerala, India Tel:+91 0487-2333020 | Fax: 0487-2338764 | Website: www.csb.co.in | E-mail: board@csb.co.in Corporate Identity Number: L65191KL1920PLC000175

Opinion, **Insight Out**



Opinion, Monday to Saturday

To book your copy, sms reachbs to 57575 or email order@bsmail.in

> **Business Standard** Insight Out

bsindia obusiness.standard business-standard.com

BENGALURU CO-OP. MILK UNION LTD., [BENGALURU DAIRY] Dr. M.H. Marigowda Road, Bengaluru-560029

E-mail Address bamulpurchase@gmail.com Website: www.bamulnandini.coop Phone: 080- 26096248

IFT No. BAMUL/PUR/09/1764/T-295/2023-24 Date: 06.07.2023

SHORT-TERM TECHNICAL CUM COMMERCIAL TENDER THROUGH THE KARNATAKA PUBLIC PROCUREMENT PORTAL

Bengaluru Co-op Milk Union Ltd., (BAMUL) Bengaluru, invites e-tender through e-Procurement Portal from the interested and eligible Manufacturers/Contractor/Dealer /Distributors for Supply of the following item.

SI	Particulars		Qty	Estd Cost in Lkhs	Tender No
01	Supply of round open top sanitary cans/tins with lids for pabutter to Maindairy for defence supply	2,60,000 Nos	59.80	KMF/2023- 24/IND0130	
02	Supply of 7ply corrugated boxes forpacking 400g b cans/tins with lids to Maindairy for defence supply	7,200 Nos	8.57	KMF/2023- 24/IND0131	
03	Supply of plastic lids for 400g butter round cans/tins with lids to Maindairy for defence supply		2,50,000 Nos	5.47	KMF/2023- 24/IND0132
1	Access to E-tender Documents 06.07.2023 to18.07.2023 till 02.00 PM Pre-Bid Meeting / Tender clarification date & time 13.07.2023 till 11.00 AM			1	
2					
3	Last date for submission of tender/ quoting 18.07.2023 till 02.00 PM Date & time for opening Technical Tender 19.07.2023 at 02.35 PM				
4			at 02.35 PM		
5	Date & time for opening Commercial Tender	21.07.2023	at 11.30 AM		

The Tenderers shall submit separate tender for the above, Tenderers are advised to note the qualification criteria specified in Section VII to qualify for award of the contract.

6 Place of opening of Technical and Commercial Tender BAMUL (Bengaluru Dairy) Board Room

The Earnest money deposit (E.M.D.) valid for 45 days beyond the validity of the tender i.e. total for 135 days, Tender processing Fee, modes of e-payment, tender document details and Other details are mentioned in https://kppp.karnataka.gov.inand also contact Help line No: 8046010000/8068948777

> Sd/- Managing Director **Tender Inviting Authority, Bamul**



THE GREAT EASTERN SHIPPING CO. LTD.

CIN: L35110MH1948PLC006472

Registered Office: Ocean House, 134/A, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai-400018. Tel No.: +91 (22) 66613000/24922100; Fax: +91 (22) 24925900 Email: shares@greatship.com; Website: www.greatship.com

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the 75th Annual General Meeting of the members of The Great Eastern Shipping Company Limited will be held through Video Conferencing ('VC') / Other Audio Visual Means ('OAVM') on Thursday, August 03, 2023 at 03.00 p.m. (I.S.T.) in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs and the Securities and Exchange Board of India.

The Notice of the AGM and the Annual Report for FY 2022-23 has been sent to the members of the Company whose email addresses are registered with the Company/Depository Participant(s) by way of email on July 07, 2023. The same is also available at the Company's website: www.greatship.com and on the websites of BSE Limited: www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited: www.nseindia.com and on the website of KFin Technologies Limited: <u>https://evoting.kfintech.com</u> and <u>https://emeetings.kfintech.com</u>. The Company has engaged the services of KFin Technologies Limited ('KFin') as the Agency

for providing VC/OAVM facility as well as e-voting facility. $\label{lem:complex} \mbox{Members will be able to attend the AGM through VC/OAVM at $$\underline{$https://emeetings.kfintech.com}$$$ All the business as set out in the Notice of AGM will be transacted through voting by

Members who are individuals holding shares in demat mode may cast their votes through remote e-voting through the websites of NSDL/CDSL/Depository Participants.

Other members may cast their votes through remote e-voting at https://evoting.kfintech.com. If the member is already registered with e-voting platform of KFin, he/she can use his/her existing User ID and Password for log in.

The facility for e-voting will also made available during the AGM and members attending the AGM who have not cast their vote(s) by remote e-voting will be able to vote at the AGM.

Instructions pertaining to Remote e-voting:

The remote e-voting period commences at 09.00 a.m. on Sunday, July 30, 2023 and ends at 05.00 p.m. on Wednesday, August 02, 2023. Remote e-voting will not be allowed beyond the said date and time and the remote e-voting will be disabled by KFin upon expiry of the aforesaid period.

A member's voting rights shall be in proportion to his/her share of the paid-up equity share capital of the Company as on July 27, 2023 ("cut-off date"). A person whose name is recorded in the register of members of the Company or in the register of beneficial owners maintained by the Depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the AGM.

Manner of registering/updating e-mail addresses to receive the Notice of the AGM along with the Annual Report:

In case of a member whose e-mail address is not registered / updated with the Company / KFin / Depository Participant(s), please follow the following steps to generate your login

- a) Members holding shares in physical mode are requested to register / update their email addresses by writing a letter to the Company or to the Company's Registrar and Transfer Agent ('RTA') - KFin Technologies Ltd. Scanned copy of the letter along with self-attested copies of PAN Card may be emailed to the Company at shares@greatship.com or to the RTA at einward.ris@kfintech.com.
- Members holding shares in dematerialised mode who have not registered their e-mail addresses with their Depository Participant(s) are requested to register / update their email addresses with the Depository Participant(s) with whom they maintain their demat
- c) After due verification, the Company / KFin will forward your login credentials to your registered email address.

Any person who becomes a member of the Company after despatch of the Notice of the Meeting and holding shares as on the cut-off date may obtain the User ID and password for remote e-voting from KFin by:

- a) If the mobile number of the member is registered against Folio No. / DP ID Client ID, the member may send SMS: MYEPWD <space> E-Voting Event Number+Folio No. or DP ID Client ID to 9212993399.
- If e-mail address or mobile number of the member is registered against Folio No. / DP ID Client ID, then on the home page of https://evoting.kfintech.com, the member may click "Forgot Password" and enter Folio No. or DP ID Client ID and PAN to generate a password.
- c) Member may call on KFin's toll-free number 1800-309-4001.

e-voting but shall not be allowed to vote again in the AGM.

d) Member may send an e-mail request to evoting@kfintech.com. e) If the member is already registered with KFin's e-voting platform, then he can use his

existing password for logging in. A member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote

In case of any queries/ grievances relating to voting by electronic means, the members may refer Frequently Asked Questions (FAQs) for shareholders available at https://evoting.kfintech.com or call on toll free no.: 1800-309-4001. The members may also

contact at the	following address:
Name:	Mr. Anil Dalvi
Designation:	Manager
Name of RTA:	KFin Technologies Limited
Address:	Selenium Tower B, Plot 31 & 32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Gachibowli, Hyderabad 500032, Telangana.
Email ID:	einward.ris@kfintech.com
Telephone:	+91-40 6716 1631
Toll free no.	1800-309-4001

Closure of Register of Members and Share Transfer Books.

Notice is further given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from July 28, 2023 to August 03, 2023 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting. For The Great Eastern Shipping Company Limited

Anand Punde

AGM and Annual Report for FY 2022-23 will be sent electronically by the Company to those Members who have registered their e-mail

nd Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the AC

Electronic dissemination of Notice and Annual Report:

addresses with the Depository Participants ("DPs"),or the Company or Link Intime India Pvt. Ltd., the Company's Registrar and Share Transfer Agent ("RTA") and the same will also be available on the website of the Company (www.rpglifesciences.com), BSE Limited (www.bseindia.com), National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com) and National Securities Depository Limited (<u>www.evoting.nsdl.com</u>). Detailed procedure for attending the AGM and voting through remote e-voting and e-voting at the AGM is being provided in the Notice of AGM. Further, Members who have not registered their e-mail addresses can also attend the AGM and vote by following the procedure being provided in the Notice of AGM.

Registration of E-mail address: The Members of the Company who have not registered their email address can register the same as per the following procedure:

- 1. The Members holding shares in physical form may get their e-mail addresses registered with RTA, at rnt.helpdesk@linkintime.co.in by providing details such as Name, Folio Number, Certificate Number, PAN, mobile number and e-mail ID and also upload the image of share certificate in PDF or JPEG Format (upto 1 MB).
- .The Members holding shares in Demat form may also temporarily registe their e-mail addresses with the RTA, at rnt.helpdesk@linkintime.co.in by providing details such as Name, DPID/Client ID, PAN, mobile number and e-mail ID. It is clarified that for permanent registration of e-mail address. the Members are requested to register the same with their respective DPs Dividend and Record Date:

The Board of Directors have recommended final dividend of Rs. 12 per equity share for FY 2022-23 for the approval of the Members at the AGM.

The Company has fixed Friday July 21, 2023 as the Record Date for determining the entitlement of Members for payment of Dividend. Members who have not updated their bank account details for receiving the dividend directly to their bank account through Electronic Clearing Service or any other means, are requested to update their complete bank details with their Depositories (where shares are held in dematerialised form) and with the Company's RTA (where shares are held in physical form) by submitting particulars of their Bank Accounts (Bank Account number, the name of the Bank and the Branch) in Form "ISR-1" along with copy of the cancelled cheque leaf wherein the name of first Member is

imprinted on the face of cheque leaf, In case of any query, a Member

may send an e-mail to RTA at rnt.helpdesk@linkintime.co.in. Tax on Dividend:

Members are requested to note that dividend income is taxable in the hands of the Members and the Company is required to deduct tax at source ("TDS")/withhold tax from dividend to be paid to Members at the prescribed rates as per the Income-Tax Act, 1961 ("IT Act"). Members are requested to complete and /or update their Residential Status, Permanent Account Number, category as per the IT Act with their DPs or in case shares are held in physical form, with the Company / RTA and submit their requisite documents / declarations to the RTA at https://linkintime.co.in/formsreg/ <u>submission-of-form-15g-15h.html</u> or email them at <u>rpglsdivtax@linkintime.co.in</u> by Friday, July 21, 2023. The detailed process and formats of requisite declarations are available on the Company's website at https://www.rpg lifesciences.com/website/TDS_on_dividend_communication.php.

For RPG Life Sciences Limited

Place: Mumbai Date : July 7, 2023

Rajesh Shirambekar Head - Legal & Company Secretary





Place: Mumbai

Date: 07.07.2023













Company Secretary







AUTICE is hereby given that the below mentioned Sub Broker / Authorised Person is no longer affiliated is Sub Broker / Authorised Person of Kotak Securities Limited.

Sub Broker/ Authorised Person of Kotak Securities Limited.

Sub Broker/ Authorised Person of Kotak Securities Limited.

Exchange Registration numbers of Sub Broker / Authorised Person Authorised Person

Authorised Person

ANJALI KAPUR NJALI KAPUR NSE - AP0291113651

F9/4 F9 MODERN SCHOOL VASANT VIHAR VASANT VIHAR - 1 SOUTH WEST NEW DELHI 110057

Please note that above mention Sub Broker (SB)/Authorised Person (AP) is no longer associated with us. Any person henceforth dealing with above mention SB/AP should do so, at their own risk. Kotak Securities Ltd. shall not be liable for any such dealing. In case of any queries for the transactions till date, investors are requested to inform Kotak Securities Ltd. within 15 days from the date of this notification, falling which it shall be deemed that there exists no queries against the above mentioned SB/AP.

Itshall be deemed natherle exists no quenes against the above mentioned SDAP.

kotak [®] Kotak Securius Limited. Registered Office: 27 BKC, C 27, G Block, Bandra Kurla No.: +22 43360000, Fax No.: +22 67132430, Website: www.kotak.com / www.kotaksecurities.com. Correspondence Address: Infinity IT Park, Bildg. No 21, Opp. Film City Road, A K Vaidya Marg, Malad (East), Mumbai 400097. Telephone No: 42856825. SEBI Registration No: INZ000200137 (Member of NSE, BSE, MSE, MCDEX), AMFI ARN 0164, PMS INP000000258, and Research Analyst INH000000566. NSDL/CDSL:IN-IND-DP-629-2021. Compliance Officer Details: Mr. Sandeep Gupta Call: 022-42858484, or Email: ks.compliance@kotak.com.

ईसीएल फाइनैंस लिमिटेड पंजीकृत कार्यालयः टावर 3, पांचवीं मंजिल, विंग 'बी', कोहिनूर सिटी मॉल, कोहिनूर सिटी, किरोल रोड, कुर्ला (वेस्ट), मुम्बई 400070 शुद्धिपत्र यह कर्जदार श्री मोहित जैन (कर्जदार) तथा श्री बेली राम तारा चंद जैन/श्रीमती रीतू जैन (सह-कर्जदार) वे

संबंध में प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय संपत्तियों के पुनर्गठन तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (सरफेसी अधिनियम) की धारा 13(2) के अधीन बिजनेस स्टैण्डर्ड (अंग्रेजी) तथा बिजनेस स्टैण्डर्ड (हिन्दी) समाचार पत्रों में दिनांक 11/05/2023 को प्रकाशित सार्वजनिक सूचना के अतिरिक्त है। प्रतिष्ठान का नाम निम्नानुसार पढ़ा जाना चाहिए: निडो होम फाइनैंस लिमिटेड (पूर्व में एडेलवेईस हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड के नाम से ज्ञात) के स्थान पर मैसर्स ईसीएल फाइनैंस लिमिटेड के रूप में पढ़ा जाना चाहिए।

इस शुद्धिगत्र को प्रतिभृतिकरण एवं वित्तीय संपत्तियाँ के पुगर्गठन तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनयम 2002 (सरफंसी अधिनयम) की धारा 13(2) के अधीन सार्वजिनक सूचना दिनांकित 11/05/2023 के हिस्से के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। बिजनेस स्टैण्डर्ड (अंग्रेजी) तथा बिजनेस स्टैण्डर्ड (हिन्ती) समाचार पत्रों में दिनांक 11/05/2023 को प्रकाशित सार्वजिनक सूचना में उत्स्तेखित अन्य विवरण, नियम एवं शते अपरिवर्तित स्हेंगी स्थान: दिल्ली हस्ता/ अधिकृत अधिकारी तारीख: 08.07.2023

NOTICE is hereby given that the below mentioned Sub Broker / Authorised Person is no longer affiliated as Sub Broker / Authorised Person of Kotak Securities Limited.

Sub Broker / Authorised Person of Kotak Securities Limited.

Sub Broker / Authorised Person of Kotak Securities Limited.

Authorised Person Name | Sub Broker / Authorised Person | Address of Sub Broker / Authorised Person |

ANIKET INVESTMENT GROUP | NSE - AP0291106552 | SE - AP01067301109013 | SE - AP01067301109013 |

Please note that above mention Sub Broker (SB)/Authorised Person (AP) is no longer associated with us Any person henceforth dealing with above mention SB/AP should do so, at their own risk. Kotak Securities Ltd. shall not be liable for any such dealing. In case of any queries for the transactions till date, Investors are requested to inform Kotak Securities Ltd. within 15 days from the date of this notification, failing which its shall be deemed that there exists no queries against the above mentioned SB/AP.

Lottal be deemed that there exists in queries against the above mentioned solars.

Lottal Kotak Securities Limited. Registered Office: 27 BKC, C 27, G Block, Bandra Kurla Kurla Kotak Securities Limited. Registered Office: 27 BKC, C 27, G Block, Bandra Kurla Kurla

मंगलम इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स लिमिटेड

मगलम इजागिनार गाजाबर्ग राजाबर्ग राजाबर्ग राजाबर्ग राजाबर्ग राजाबर्ग राजाबर्ग राजाबर्ग राजाबर्ग राजाबर्ग राजाबर् एकोकृत कार्यात्वरः 101शी, मुतल, कुंचन हाउस, हरीमगर आश्रम, मधुरा रोड, नई दिल्ली-110014 वेबसाइटः www.manglamengineering.com इंमेलः info@manglamengineering.com उठ जून, 2023 को समाप्त तिमाही के लिए अलेखा परीक्षित वित्तीय परिणामों का सारांघ्र (र लाख

क्र. सं.	विवरण	30 .06 .2023 को समाप्त तिमाही	31 .03 .2023 को समाप्त तिमाही	30.06.2022 को समाप्त तिमाही	31 .03 .2023 को समाप्त वर्ष
		(अलेखा परीक्षित)	(लेखा परीक्षित)	(अलेखा परीक्षित)	
1	परिचालन से कुल आय (निवल)	4.49	-0.75	1.08	27.21
2	अवधि हेतु निवल लाम/(हानि) (कर, विशिष्ट तथा/अथवा असाधारण मदों के पहले)	1.77	-3.62	-7.50	13.44
3	कर पूर्व अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) (विशिष्ट तथा/अथवा असाधारण मदों के उपरांत)	1.77	-3.62	-7.50	13.44
4	करोपरांत अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) (विशिष्ट तथा/अथवा असाधारण मदों के उपरांत)	1.15	-3.14	-6.83	8.68
5	अवधि के लिए कुल परिपूर्ण आय [अवधि (करोपरांत) के लिए लाम/(हानि) तथा अन्य परिपूर्ण आय (करोपरांत) सम्मिलित]	64.53	-134.41	-394.64	-380.29
6	इक्विटी शेयर पूंजी	122.50	122.50	122.50	122.50
7	आरक्षित निधि (पुनर्मूल्यांकन रिजर्व को छोड़कर)	-	-	-	1868.66
8	प्रति शेयर उपार्जन (रु. 10/- प्रत्येक) (वार्षिक आधार पर नहीं) बेसिकः	0.09	-0.26	-0.56	0.71

विसंकः 0.09 -0.26 -0.56 0.71

3 उपरोक्त विस्तर संग्री (सुचीकरण एवं प्रकटन आवयकताएँ) विनियमनो 2015 के विनियमन 33 के अधीन स्टॉक एक्सवेज के पास ट्रायर 30 जुन, 2023 को समाप्त तिमाही के विस्तृत अलेखा परिवित्त वितीय परिणामों का समुर्ण स्ट्राल एक्सवेज वेपास ट्रायर 30 जुन, 2023 को समाप्त तिमाही के विस्तृत अलेखा परिवित्त वितीय परिणामों का समुर्ण स्ट्राल एक्सवेज के वेप्तस ट्रायर 30 जुन, 2023 को समाप्त तिमाही के विस्तृत अलेखा परिवित्त वितीय परिणामों का समुर्ण स्ट्राल एक्सवेज के वेप्तस एक्सवेज के पास हो 2023 को आंग्रीक तिम्रेश कं स्ट्राल के विद्या परिवार का प्रविद्या अपने विद्या पार हो 2013 को वादा 13 के साथ पतिव उसके अलंग का वार्त प्रवारों के अलेन वित्रात का प्रवार अवतेज के प्रति होतित आईएनडी एएस अं अंत्रीवित का प्रवार अंत्री अविधित्य प्रतिवेदन में उन्तेवित वित्रात पतिव उसके अलंग का वार्ती प्रतित का अपने के अपने निविद्य के अपने वित्रीत का अलंग अंत्रीत विद्या प्रतिवेदन में उन्तेवित वित्रीय पतिव अलंग के अपने निवर्ग के अपने के अपने निवर्ग के अपने निवर्ग के अपने निवर्ग के अपने विद्या के अपने विद्या के अलंग निवर्ग के अपने निव

पंजाब नैशनल बैंक

ल बेंक <mark>ए ि ००७ ०</mark>

punjab national bank

...the name you can BANK upon!

सर्किल सस्त्र सेंटर, पॉकेट-ई, मयूर विहार फेज-II, दिल्ली-110091, ई-मेल : cs8075@pnb.co.in, दूरभाष : 011-22779758, 22785289 अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम,

2002 के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना।

एतद्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार(रों) एवं जमानती(यों) को सूचना दी जाती है कि प्रतिभूति क्रेडिटर के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका भौतिक/सांकेतिक कब्जा बैंक/प्रतिभूत क्रेडिटर के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा कर लिया गया था, की बिक्री सम्बद्ध कर्जदार(रों) एवं जमानती(यों) से बैंक/प्रतिभूत क्रेडिटर के बकायों की वसूली हेतु नीचे तालिका में तिथा पर भी तिथियों पर "जहाँ है वहाँ है" तथा "जो कुछ भी है वहीं है" आधार पर की जायेगी। आरक्षित मूल्य तथा जमा धरोहर राशि नीचे तालिका में सम्बन्धित सम्पत्तियों के सम्मुख उल्लिखित के अनुसार होगी।

लॉट सं.	शास्त्रा का नाम स्वाने का नाम	सरफैसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत माँग सूचना की तिथि मांग सूचना के अनुसार राशि	अचल सम्पत्तियों का विवरण बंधककर्ता/स्वामी का नाम [सम्पत्ति(यों) के बंधककर्ता]	आरक्षित मूल्य ईएमडी (ईएमडी जमा	ई-नीलामी की तिथि⁄समय	प्रतिभूति क्रेडिटर के संज्ञान ऋणभारों का विवरण
	खात का नाम कर्जदार/जमानतियों का नाम तथा पता खाता	स्एफैसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के तहत कब्जा करने की तिथि कब्जे की प्रकृति सांकेतिक/भौतिक/रचनात्मक		करने की अन्तिम तिथि)		अधिकृत प्राधिकारी का नाम सम्पर्क नं.
	शा.का. : पहाड़गंज, दिल्ली (013000)	०५.०० का प्रकृति साकातक/भातक/रचनात्मक	सम्पत्ति सम्पूर्ण प्रथम तल, उत्तरी ओर निगम सं. XV/563/354 का भाग, गली	संविदा वृद्धि राशि रु. 26.35 लाख	03.08.2023	ज्ञात नहीं
	श्रीमती नेहा सोनी पत्नी श्री राम चन्दर सोनी (कर्जदार) पता : 354, गली चांदी वाली, पहाइगंज, नई दिल्ली–110055	रु. 29.87 लाख + पूर्ण एवं अन्तिम भुगतान की तिथि तक भावी ब्याज, अन्य प्रभार एवं व्यय	चांदी वाली, मानटोला, पहाइगंज, नई दिल्ली में स्थित, श्रीमती नेहा सोनी के नाम पर, माप 63,20 वर्ग मीटर (77.50 वर्ग गज)	रु. 2.64 लाख (02.08.2023)	को 11.00 बजे पुर्वा. से	श्री एच.एस. कर्दम
	श्री रामचन्दर सोनी (कर्जदार)		नाप 65.20 वर्ग माटर (77.50 वर्ग गण)	रु. 25,000∕-	04.00 बजे	(मो. नं. 8171589938) अधिकृत प्राधिकारी
	पता : 354, गली चांदी वाली, पहाड़गंज, नई दिल्ली-110055	01.10.2021 सांकेतिक			अप.	सर्किल सस्त्र ईस्ट दिल्ल
	शा.का.: आनंद विहार, दिल्ली (398000)	20.06.2022	फ्रीहोल्ड बिल्डअप एम.आई.जी. फ्लैट नं. एसएफ-3, कवर्ड एरिया माप 55.74 वर्ग	रु. 13.50 लाख	03.08.2023	ज्ञात नहीं
	श्री मुजीब उल्ला पुत्र एहसान उल्ला (कर्जदार) पताः 369, स्ट्रीट नंबर 2, बुद्ध विहार, मंडोली, नॉर्थ ईस्ट, दिल्ली–110093। साथ हीः 379, स्ट्रीट नंबर 2, बुध विहार, मंडोली, नॉर्थ ईस्ट, दिल्ली–110093। साथ ही : एम.आई.जी. फ्लैट नं. 03, प्लॉट नं. बी–59, ब्लॉक-बी, दूसरी मंजिल, एसएलएफ वेद विहार, सादुल्लाबाद,	रु. 16.21 लाख + भावी ब्याज, अन्य प्रभार तथा पूर्ण एवं अन्तिम भगतान तक व्यय	मीटर, दूसरी मंजिल पर छत के अधिकार सहित, प्लॉट नंबर बी-59, ब्लॉक-बी, खसरा नं. 409 एसएलएफ वेद विहार आवासीय कॉलोनी में, सादुल्लाबाद, परगना-	হ্ন. 1.35 লা ন্ত (02.08.2023)	को 11.00 बजे पूर्वा. से	श्री एच.एस. कर्दम (मो. नं. 8171589938
	लोनी, गाजियाबाद, उ.प्र. साथ हीः शॉप नंबर 11/513, खसरा नंबर-183, मेन सेवा धाम रोड, मंडोली एक्सटेंशन, दिल्ली-110093। साथ हीः अंकुर टेलीकॉम		लोनी, तहसील और जिला गाजियाबाद (उ.प्र.) पर स्थित	₹. 25,000/-	04.00 बजे अप.	अधिकृत प्राधिकारी
	227/2, केएच नंबर-1/62, गली नंबर-10, मेन रोड चौहान बांगर दिल्ली, एनआर मोहन मेडिकल स्टोर नई दिल्ली-110053। श्री नसीबुल्ला पुत्र बाबू खान (गारंटर) पताः 369, स्ट्रीट नंबर 2, बुद्ध विहार, मदीना मस्जिद के पास, मंडोली, नॉर्थ ईस्ट, दिल्ली-110093. साथ हीः 369, स्ट्रीट				514.	सर्किल सस्त्र ईस्ट दिल
	नंबर 2, बुद्ध विहार, मंडोली, नॉर्थ ईस्ट, दिल्ली-110093। साथ ही : मकान नंबर-369, दूसरी मंजिल, खसरा नंबर-25/19, गली नंबर-10, बुद्ध विहार, मंडोली गांव, दिल्ली-110093। साथ ही: जलज प्रसाद कंपनी, नंबर 488/5, दूसरी मंजिल, दिलशाद गार्डन, दिल्ली -110093। साथ ही: मकान नं. 369, बुद्ध विहार, मंडोली,					
	माल्टिन मस्जिद के पास, दिल्ली-110093। साथ ही: ए-11, साई अपार्टमेन्ट, सेक्टर-13, रोहिणी दिल्ली-110085। साथ ही: बी-24, साई एपापीटी, सेक्टर-13, रोहिणी, दिल्ली-110085। साथ ही: मकान नंबर-643, सेक्टर-32, नोएडा, उ.प्र201301।					
	(सहिणा, दिल्ला-1100851 साथ हाः मकान नवर-643, सक्टर-32, नाएडा, उ.प्र2013011					
	शा.का.: गांधी नगर, दिल्ली (008510)	01.12.2022	प्रथम तल पर निर्मित फ्री होल्ड फ्लैट का इक्विट्रेबल बंधक, फ्लैट नं. एफ-ए, संपत्ति	रु. 35.10 लाख	03.08.2023	ज्ञात नहीं
	श्रीमती शबाना परवीन पत्नी मोहम्मद मंसूर पुत्र स्व. अब्दुल सत्तार (कर्जदार) पताः 1470, गली नंबर-48, जाफराबाद, दिल्ली-110053, साथ हीः बी-58, पहली मंजिल, न्यू जाफराबाद, शाहदरा, दिल्ली-110053	रु. 20.41 लाख + भावी ब्याज, अन्य प्रभार तथा पूर्ण एवं अन्तिम भगतान तक व्यय	संख्या बा–58, का हिस्सा, क्षेत्रफल 70 वर्ग माटर, छत के आधेकार के बिना, न्यू जाफराबाद में स्थित, आवासीय योजना इलाका शाहदरा दिल्ली –110032, शबाना	হ্ন. 3.51 লাজ (02.08.2023)	को 11.00 बजे पूर्वा. से	श्री एच.एस. कर्दम (मो. नं. 817158993
		17.02.2023	परवीन के नाम पर।	₹. 25,000/-	04.00 बजे अप.	अधिकृत प्राधिकारी
		भौतिक				सर्किल सस्त्र ईस्ट दि
	शा.का.: गुरुद्वारा रोड, दिल्ली (012000) मैसर्स एलायंस टेड विजन प्रा. लिमिटेड (कर्जदार)	12.07.2019 रु. 408.61 लाख + भावी ब्याज, अन्य प्रभार तथा पूर्ण एवं	सम्पत्ति प्लॉट नं. बी-XVII-47बी/2-ए/5एफ/515, 5वीं मंजिल, तरफ ब्रूरा, जी.टी. रोड. कंदन नगर, ध्यान सिंह कॉम्पलेक्स, निकट बस स्टैण्ड, लुधियाना, मैसर्स कोयन	रु. 83.30 लाख रु. 8.33 लाख	03.08.2023 को 11.00	ज्ञात नहीं श्री एच.एस. कर्दम
	पताः विल-बायन, तहसील गन्नौर, जिला सोनीपत, हरियाणा-131101, साथ ही; 805, 8वीं मंजिल, पर्ल्स ओमैक्स, नेताजी सुभाष पैलेस, पीतमपुरा, दिल्ली-110034	अन्तिम भुगतान की तिथि तक व्यय	सेल्स एलएलपी के नाम पर	(02.08.2023)	बजे पूर्वा. से 04.00 बजे	(मो. नं. 817158993
	मैसर्स वी ए एक्सपोर्ट ट्रेडर एलएलपी (गारंटर) पता; बी-XVII-478/2ए/5एफ/518, 5वीं मंजिल, ध्यान सिंह कॉम्प्लेक्स, बस स्टैंड के पास, लुधियाना. पंजाब	19.09.2019		₹. 25,000/-	04.00 बज अप.	अधिकृत प्राधिकार्र सर्किल सस्त्र ईस्ट दि
	श्रीमती सविता गुप्ता (गारंटर सह बंधककर्ता) पता; प्लॉट नंबर 403, विराट को-ऑपरेटिव जीएचएस, पश्चिम विहार, दिल्ली-110087 मैसर्स वीजा कोजे इंक (गारंटर) पताः प्लॉट नंबर 173, साइट-II, विकासपुरी, नई दिल्ली-110018, साथ ही; कमर्शियल प्लॉट/शॉप नंबर बी-17, शंकर गार्डन, नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली-11001/8,	भौतिक				
	साथ हीः डब्ल्यूजेड-14ए, गांव बोडेला, विकासपुरी, दिल्ली-110018					
	श्री विपिन कुमारे गुप्ता (गारंटर) पता; 19, पहली मेंजिल, रोड नंबर 33, पंजाबी बाग एक्सटेंशन, दिल्ली–110026।, श्री जयिकशन गुप्ता (गारंटर) पताः गांव–दिरयापुर, विवाह वाटिका के पास, जिला झज्जर, हरियाणा।, मैसर्स कोयना सेल्स एलएलपी पार्टनर (गारंटर) पताः बी–XVII–478/2ए/5एफ/518, 5वीं मंजिल, ध्यान सिंह					
	कॉम्प्लेक्स, बस स्टैंड के पास, लुधियाना. पंजाब, श्री सुभाष रहेजा (गारंटर) पता; 11/27, ब्लॉक-11, डबल स्टोरी, मोती नगर, दिल्ली।			_		
	शा.का.: गुरुद्वारा रोड, दिल्ली (012000) मैसर्स एलावंस ट्रेड विजन प्रा. लिमिटेड (कर्जदार)	12.07.2019 रु. 408.61 लाख + भावी ब्याज, अन्य प्रभार तथा पूर्ण एवं	सम्पत्ति प्लॉट नं. बी-XVII-47बी/2-ए/5एफ/518, 5वीं मंजिल, तरफ ब्रूरा, जी.टी. रोड, कुंदन नगर, ध्यान सिंह कॉम्पलेक्स, निकट बस स्टैण्ड, लुधियाना, मैसर्स वीए	रु. 100.98 लाख रु. 10.10 लाख	03.08.2023 को 11.00	जात नहीं श्री एच.एस. कर्दग
	पताः विल-वायन, तहसील गन्नीर, जिला सोनीपत, हरियाणा-131101, साथ ही; 805, 8वीं मंजिल, पर्ल्स ओमैक्स, नेताजी सुभाष पैलेस, पीतमपुरा, दिल्ली-110034 मैसर्स वी ए एक्सपोर्ट टेडर एलएलपी (गारंटर)	6.	एक्सपोर्ट्स एलएलपी के नाम पर	(02.08.2023) रु. 25,000/-	बजे पूर्वा. से 04.00 बजे	(मो. नं. 817158993 अधिकत प्राधिकार्
	पता; बी-XVII-478/2ए/5एफ/518, 5वीं मंजिल, ध्यान सिंह कॉम्प्लेक्स, बस स्टैंड के पास, लुधियाना. पंजाब	19.09.2019		VI. 23,000/	04.00 बज अप.	आधकृत प्राधिकाः सर्किल सस्त्र ईस्ट वि
	श्रीमती सविता गुप्ता (गारंटर सह बंधककर्ता) पता; प्लॉट नंबर 403, विराट को-ऑपरेटिव जीएचएस, पश्चिम विहार, दिल्ली-110087 मैसर्स वीजा कोजे इंक (गारंटर) पताः प्लॉट नंबर 173, साइट-II, विकासपरी, नई दिल्ली-110018, साथ ही; कमर्शियल प्लॉट/शॉप नंबर बी-17, शंकर गार्डन, नजफगढ रोड, नई दिल्ली-11001/8,	भौतिक				
	साथ ही: डब्ल्यूजेड-14ए, गांव बोडेला, विकासपुरी, दिल्ली-110018 श्री विपिन कुमार गुप्ता (गारंटर) पता: 19, पहली मंजिल, रोड नंबर 33, पंजाबी बाग एक्सटेंशन, दिल्ली-110026।, श्री जयकिशन गुप्ता (गारंटर) पता: गांव-दरियापुर,					
	विवाह वाटिका के पास, जिला झज्जर, हरियाणा।, मैसर्स कोयना सेल्स एलएलपी पार्टनर (गारंटर) पताः बी-XVII-478/2ए/5एफ/518, 5वीं मंजिल, ध्यान सिंह					
	कॉम्प्लेक्स, बस स्टैंड के पास, लुधियाना. पंजाब, श्री सुभाष रहेजा (गारंटर) पता; 11/27, ब्लॉक-11, डबल स्टोरी, मोती नगर, दिल्ली।	03.42.2022				
	चांदनी चौक, दिल्ली (000110) मैसर्स आर आर फैब्रिक्स प्रोपराइटर श्री मन मोहन शर्मा (कर्जदार) के माध्यम से	03.12.2022 रु. 22.71 लाख +पूर्ण एवं अन्तिम भुगतान की तिथि तक भावी	वाणिज्यिक दुकान नं. 212, दूसरी मंजिल, सम्पत्ति नं-599, गली घंटेश्वर, कटरा नील, चांदनी चौक, दिल्ली-110006, कुल क्षेत्रफल 11.15 वर्ग मीटर, श्री मनमोहन शर्मा	रु. 14.43 लाख रु. 1.45 लाख	03.08.2023 को 11.00	ज्ञात नहीं श्री एच.एस. कर्दग
	पताः 599/212, दूसरी मंजिल, कटरा नील, चांदनी चौक, दिल्ली -110006 श्री मन मोहन शर्मा पुत्र श्री राजा राम शर्मा (मालिक) पता : बी-306 आर, ब्लॉक-बी, गली नंबर-2, अशोक नगर, नंद नगरी, दिल्ली-110093	ब्योज, अन्य प्रभार तथा व्यय	पुत्र श्री राजा राम शर्मा के नाम पर	(02.08.2023) 表. 25,000/-	बजे पूर्वा. से 04.00 बजे	(मो. नं. 817158993
	त्रा मन माहन रामा युत्र त्रा राजा राम रामा (माराय) मरा . आ=500 जार, जरायम-या, गरा मजर-2, जरायम मगर, मद नगर, प्रराम-110095	17.03.2023			अप.	अधिकृत प्राधिकार्र सर्किल सस्त्र ईस्ट दि
	णा.का: गरुद्वारा रोड, दिल्ली (012000)	भौतिक 04.10.2019	B-XVII-478/2-A/SF/516 पर आईपी का इक्विटेबल बंधक, तरफ बरुरा,	रु. 84.13 लाख	03.08.2023	ज्ञात नहीं
	संकल्प वर्ल्डवाइड ट्रेडलिंक (कर्जदार) पताः 70, बी/2 रामा रोड इंडस्ट्रियल एरिया, मोती नगर, दिल्ली-110015।	रु. 173.09 लाख + भावी ब्याज, अन्य प्रभार तथा पूर्ण एवं	जी.टी. रोड, कुन्दर नगर, ध्यान सिंह कॉम्पलेक्स, सामने बस स्टैण्ड, लुधियान, श्री	रु. 8.42 लाख	को 11.00 बजे पूर्वा. से	श्री अखौरी बिनय
	साथ ही: 805, 8वीं मंजिल, पर्ल ओमैक्स, नेताजी सुभाष पैलेस, पीतमपुरा, दिल्ली।, साथ ही: गांव-बाएन, तहसील गनौर, जिला सोनीपत। श्री मनोज कुमार मंडल (प्रोपराइटर) पताः 805, 8वीं मंजिल, पर्ल्स ओमैक्स, नेताजी सुभाष पैलेस, पीतमपुरा, दिल्ली। साथ ही: गांव-बाएनं, तहसील गनौर, जिला		सुभाष चन्दर पुत्र श्री दयानन्द (एकल स्वामित्व) के नाम पर, खाता नाम मैसर्स सरेव्रम एंटरप्राइजेज एलएलपी, सुपर कवर्ड एरिया 2828 वर्ग फीट	(02.08.2023) 表. 25,000/-	04.00 बजे	(मो. नं. ९९२३६२५०३ अधिकृत प्राधिकारी
	सोनीपत।, साथ ही: 32/1, पहली मंजिल, पॉकेट-डी-6, सेक्टर-6, रोहिणी, दिल्ली।, मैसर्स सर्वराम एंटरग्राइजेज एलएलपी (गारंटर) पताः बी-5, बेसमेंट, शंकर गार्डन, विकासपुरी, दिल्ली-18, श्रीमती विपिन कुमार गुप्ता (गारंटर) पताः गांव दरियापुर, वाटिका के पास, जिला झज्जर, हरियाणा।	04.01.2020 भौतिक			अप.	सर्किल सस्त्र पूर्वी वि
	साथ ही: 19, पहली मंजिल, संड्क सं. 33, पंजावी बाग एक्सटेंशन, दिल्ली-110026 वीके गुप्ता एलएलपी (गारंटर) पताः बी-5, बेसमेंट, शंकर गार्डन, विकासपुरी, दिल्ली-18					
	श्रीमती सविता गुप्ता (गारंटर) पताः प्लॉट नं. 403, विराट को–ऑपरेटिव जीएचएस, पश्चिम विहार, दिल्ली–110087					
	साथ ही: प्लॉट नं. 173, साइट-II, विकासपुरी, दिल्ली–110018 साथ ही: डब्ल्यूजेड 14ए, ग्राम–बोडेला, विकासपुरी, दिल्ली–110018					
	साथ हीः कमर्शियल प्लॉट/दुकान नं. बी-17, शंकर गार्डन, नजफगढ़ रोड, दिल्ली-110018					
	शा.का.: गुरुद्वारा रोड, दिल्ली (012000) संकल्प वर्ल्डवाइड ट्रेडलिंक (कर्जदार) पताः 70, बी/2 रामा रोड इंडस्ट्रियल एरिया, मोती नगर, दिल्ली–110015।	04.10.2019 रु. 173.09 लाख + भावी ब्याज, अन्य प्रभार तथा पुर्ण एवं	B-XVII-478/2-A/SF/517 पर आईपी का इक्विटेबल बंधक, तरफ बरुरा, जी.टी. रोड, कुन्दर नगर, ध्यान सिंह कॉम्पलेक्स, सामने बस स्टैण्ड, लुधियान, श्री	रु. 88.42 लाख रु. 8.85 लाख	03.08.2023 को 11.00	ज्ञात नहीं श्री अखौरी बिनय
	साथ ही: 805, 8वीं मंजिल, पर्ल ओमैक्स, नेताजी सुभाष पैलेस, पीतमपुरा, दिल्ली।, साथ ही: गांव-बाएन, तहसील गनौर, जिला सोनीपत। श्री मनोज कुमार मंडल (प्रोपराइटर) पताः 805, 8वीं मंजिल, पर्ल्स ओमैक्स, नेताजी सुभाष पैलेस, पीतमपुरा, दिल्ली। साथ ही: गांव-बाएनं, तहसील गनौर, जिला	अन्तिम भुगतान की तिथि तक व्यय	सुभाष चन्दर पुत्र श्री दयानन्द (एकल स्वामित्व) के नाम पर, खाता नाम मैसर्स सरेन्नम एंटरप्राइजेज एलएलपी, सुपर कवर्ड एरिया 2972 वर्ग फीट	(02.08.2023) रु. 25,000/-	बजे पूर्वा. से 04.00 बजे	(मो. नं. 992362503
	सोनीपत।, साथ ही: 32/1, पहली मंजिल, पॉकेट-डी-6, सेक्टर-6, रोहिणी, दिल्ली।	04.01.2020	५८८ त्राइणण १८१५८ मा, सुनर कावड १९४५। ४५७४ वर्ग माट	25,000	अप.	अधिकृत प्राधिकार सर्विल सस्त्र पूर्वी दि
	मैसर्स सर्वराम एंटरग्राइजेज एलएलपी (गारंटर) पताः बी-5, बेसमेंट, शंकर गार्डन, विकासपुरी, दिल्ली-18 श्रीमती विपिन कुमार गुप्ता (गारंटर) पताः गांव दरियापुर, वाटिका के पास, जिला झज्जर, हरियाणा।	भौतिक				
	साथ ही: 19, पहली मंजिल, सड़क सं. 33, पंजाबी बाग एक्सटेंशन, दिल्ली–110026, वीके गुप्ता एलएलपी (गारंटर) पताः बी–5, बेसमेंट, शंकर गार्डन, विकासपुरी, दिल्ली–18, श्रीमती सविता गुप्ता (गारंटर) पताः प्लॉट नं. 403, विराट को–ऑपरेटिव जीएचएस, पश्चिम विहार, दिल्ली–110087					
	साथ हीः प्लॉट नं. 173, साइट $-\mathrm{II}$, विकासपुरी, दिल्ली $-$ 110018					
	साथ ही: डब्ल्यूजेड 14ए, ग्राम-बोडेला, विकासपुरी, दिल्ली–110018 साथ ही: कमशिंयल प्लॉट/दुकान नं. बी–17, शंकर गार्डन, नजफगढ़ रोड, दिल्ली–110018					
	शा.का.: आनंद विहार, दिल्ली (398000)	01.09.2021	आवासीय संपत्ति संख्या II-I/7बी, पूरी तीसरी मंजिल, बिना छत/टेरेस के अधिकार	रु. 70.07 लाख	03.08.2023	ज्ञात नहीं
	श्रीमती रेशु देवी पत्नी श्री जफर हुसैन भट्ट (कर्जदार) पताः ई-32, तीसरी मंजिल, लाजपत नगर-2, नई दिल्ली, भारत- 110024 साथ ही : आई-7बी, तीसरी मंजिल, लाजपत नगर-2, नई दिल्ली, भारत-110024	रु. 76.89 लाख + भावी ब्याज, अन्य प्रभार तथा पूर्ण एवं अन्तिम भगतान की तिथि तक व्यय	के, क्षेत्रफल 100 वर्ग गज लाजपत नगर II, दिल्ली-110024 में स्थित।	হ্ন. 7.01 লাজ (02.08.2023)	को 11.00 बजे पूर्वा. से	श्री एच.एस. कर्दम (मो. नं. 817158993
	श्री जफर हुसैन भट्ट पति श्रीमती रेशु देवी (कर्जदार) पताः ई-32, तीसरी मंजिल, लाजपत नगर-2, नई दिल्ली, भारत- 110024 साथ ही : आई-7बी, तीसरी मंजिल, लाजपत नगर-2, नई दिल्ली , भारत-110024	16.09.2022		₹. 25,000/-	04.00 बजे अप.	अधिकृत प्राधिकार्र
	राज सार प्राप्त प्राप्त पाणिस, राज्याम गण्यम्, त्री प्रदेशी , नाराजा 110024	16.09.2022 भौतिक			-111	सर्किल सस्त्र ईस्ट दि
	शा.का.: गुरुद्वारा रोड, दिल्ली (012000)	19.09.2019 रु. ४१७.७४ लाख + भावी ब्याज, अन्य प्रभार तथा पूर्ण एवं	खाता संख्या में आईपी का इक्विटेबल बंधक, 172, खसरा नंबर 11/6/1(2-11) और 15 [1/2(1-2)] का हिस्सा, गांवः दरियापुर, विवाह वाटिका के पास, जिलाः	रु. 122.75 लाख रु. 12.28 लाख	03.08.2023 को 11.00	ज्ञात नहीं
	मैसर्स वीजा कोजे इंक (कर्जदार) पताः 805, 8वीं मंजिल, पर्ल्स ओमैक्स, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, दिल्ली–110034। साथ हीः गोदाम, राधा स्वामी सत्संग बाइपास के पास, मुबारक ओवरसीज प्रा. लिमिटेड गांव बायें, तहसील गनौर, सोनीपत, हरियाणा–131101. साथ हीः 173, साइट II, विकासपुरी, नई दिल्ली–	रु. 417.74 लीख + भावा ब्याज, अन्य प्रभार तथा पूर्ण एव अन्तिम भुगतान की तिथि तक व्यय	झज्जर, हरियाणा, विपिन कुमार गुप्ता के नाम पर, क्षेत्रफल 3 कनाल 3 मरला यानी	(02.08.2023)	बजे पूर्वा. से	श्री एच.एस. कर्दग (मो. नं. 817158993
	110018। साथ हीः बी-51, बेसमेंट, शंकर गार्डन, विकासपुरी, नई दिल्ली-110009। श्रीमती सविता गुप्ता (प्रोपगइटर) पताः 19, पहली मंजिल, पंजाबी बाग एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110026।	12.02.2020	1593.436 वर्ग मीटर।	₹. 25,000/-	04.00 बजे अप.	अधिकृत प्राधिकार सर्विल सस्त्र ईस्ट वि
	श्री विपिन गुप्ता (गारंटर) पताः बी-51, शंकर गार्डन, विकासपुरी, नई दिल्ली-110009	भौतिक				970 10
	मैसर्स एजी ट्रेडविजन एलएलपी (गारंटर) पताः बी-51, शंकर गार्डन, विकासपुरी, नई दिल्ली-110009	11.07.2014		F 254/2	02.02.53	
	शा.का.: मयूर विहार फेज-II, दिल्ली (440800) मैसर्स एवीआई फैब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड (कर्जदार) पताः 10625, फर्स्ट फ्लोर, झंडेवालान रोड, नबी करीम, नई दिल्ली-110055। साथ हीः ए-28,	रु. 1105.46 लाख + भावी ब्याज, अन्य प्रभार तथा पूर्ण एवं	प्लॉट माप 300 वर्ग गज पर आवासीय निर्माण, पहली मंजिल, 209, डी-ब्लॉक, अशोक विहार, फेज-1, दिल्ली-110052 में, विजय कुमार मित्तल के नाम पर	रु. 354.62 लाख रु. 35.47 लाख	03.08.2023 को 11.00	ज्ञात नहीं श्री एच.एस. कर्दग
	यूपीआईडीसी इंडस्ट्रियल एस्टेट, एमजी रोड इंड एरिया, फेज II, मसूरी गोलावती रोड, जिला गाजियाबाद (उप्र)। मोबाइलः 9311115574। श्रीमती आराधना सक्सेना (बंधककर्ता और गारंटर) पताः केएच-221, कवि नगर, गाजियाबाद, (युपी)।	अन्तिम भुगतान तक व्यय		(02.08.2023) 表. 25,000/-	बजे पूर्वा. से 04.00 बजे	(मो. नं. 817158993 अधिकृत प्राधिकार्र
	स्व. श्री विजय कुमार के कानूनी वारिस (बंधककर्ता और गारंटर) पताः हाउस नंबर 209, पहली मंजिल, डी-ब्लॉक, स्थित अतशोक विहार, फेज-1, नई दिल्ली-	19.09.2014		,	अप.	आधकृत प्राधिकार सर्विल सस्त्र ईस्ट वि
	110052। श्री गिरीश कंसल (गारंटर) पताः II-बी, 113, नेहरू नगर, गाजियाबाद, (यूपी)। श्री मनीष कंसल (गारंटर) पताः II-बी, 113, नेहरू नगर, गाजियाबाद, (यूपी)। श्रीमती आरती कंसल (गारंटर) पताः II-बी, 113, नेहरू नगर, गाजियाबाद, (यूपी)।	सांकेतिक				
			मकान नं. 916, सेक्टर-15, अर्बन एस्टेट, फरीदाबाद, हरियाणा-121007 का	रु. 440.00 लाख	18.08.2023	ज्ञात नहीं
•	मैसर्स रोनाल्ड इन प्रा. लिमिटेड (कर्जदार) अपने निदेशक सह गारंटरों श्री अशोक भाटिया और श्रीमती अनीता भाटिया के माध्यम से - पताः ई-156 (बेसमेंट),	रु. 131.54 लाख + भावी ब्याज, अन्य प्रभार तथा पूर्ण एवं	इक्विटेबल बंधक, श्री अशोक भाटिया एवं श्रीमती अनीता भाटिया के नाम पर, क्षेत्रफल	रु. 44.00 लाख	को 11.00 बजे पूर्वा. से	श्री एच.एस. कर्दग
	कालकाजी, नई दिल्ली–110020। साथ हीः 8902, होटल रोनाल्ड, 64, नीलम बाटा रोड, एसी नगर, न्यू इंडस्ट्रियल टाउन, फरीदाबाद, हरियाणा –121001	अन्तिम भुगतान की तिथि तक व्यय	माप 540 वर्ग गज	(17.08.2023) 表 25,000/-	04.00 बजे	(मो. नं. 81715899: अधिकृत प्राधिकार
	इसके अलावाः 5पी/37, एनआईटी, फरीदाबाद, हरियाणा-121001, साथ हीः मकान नं. 916, सेक्टर-15, अर्बन एस्टेट, जिला, फरीदाबाद, हरियाणा-121007 श्री हिमांक भाटिया (गारंटर) पताः ई-156 (बेसमेंट), कालकाजी, नई दिल्ली-110020, साथ हीः 8902, होटल रोनाल्ड, 64, नीलम बाटा रोड, एसी नगर, न्यू	18.04.2023			अप.	सर्किल सस्त्र ईस्ट वि
	इंडस्ट्रियल टाउन, फरीदाबाद, हरियाणा -121001, साथ ही: 5पी/37, एनआईटी, फरीदाबाद, हरियाणा-121001, साथ ही: मकान नंबर 916, सेक्टर -15, अर्बन	सावगतक				
	एस्टेट, जिला, फरीदाबाद, हरियाणा –121007, श्री राजेश भाटिया (गारंटर) पताः ई–156 (बेसमेंट), कालकाजी, नई दिल्ली–110020, साथ हीः 8902, होटल रोनाल्ड, 64, नीलम बाटा रोड, एसी नगर, न्यू इंडस्ट्रियल टाउन, फरीदाबाद, हरियाणा –121001, साथ हीः 5पी/37, एनआईटी, फरीदाबाद, हरियाणा–121001, साथ					
	ही: मकान नंबर 916, सेक्टर -15, अर्बन एस्टेट, जिला, फरीदाबाद, हरियाणा -121007					

ई-नीलामी बिक्री के संक्षिप्त नियम एवं शर्तें :

बिक्री प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 में निर्धारित नियम एवं शर्तों तथा आगे निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी : 1. सम्पत्तियों की बिक्री "जहाँ है जैसे है", "जो है वहीं है" तथा "जो कुछ भी है वहीं है" आधार पर की जा रही है। 2. यहाँ ऊपर अनुसूची में निर्दिष्ट प्रतिभूत आस्तियों के विवरण अधिकृत प्राधिकारी की सर्वोत्तम सूचना के आधार पर बताये गये हैं, किन्तु अधिकृत प्राधिकारी इस उद्घोषणा में किसी त्रुटि, गलतबयानी अथवा विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। 3. बिक्री वेबसाइट https://www.mstcecommerce.com पर प्रावधानित ई-नीलामी प्लेटफार्म के माध्यम से नीलानी की उपर्युक्त तिथि एवं समय तक होगी। 4. बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया www.ibapi.in, www.tenders.gov.in,www.mstcecommerce.com, https://eprocure.gov.in/epublish/app. देखें।